



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 वैशाख 1937 (श0)
(सं0 पटना 555) पटना, सोमवार, 11 मई 2015

कार्यालय, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश
13 अप्रील 2015

सं0 07 / नि. (विधि) बैंक—31 / 03-2233—निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक—6624, दिनांक 01.12.2014 के द्वारा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा—44 (1) एवं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम 64 (2) के अन्तर्गत श्री गोपाल मीना, जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा—सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मधेपुरा का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

सम्प्रति जिला पदाधिकारी, मधेपुरा—सह—परिसमापक मधेपुरा—सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मधेपुरा ने अपने पत्रांक—545/विधि दिनांक 01.04.2015 के द्वारा श्री समरेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को सहायक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

अतएव मैं अजय कुमार चौधरी, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के नियम—64 (2) में निहित प्रावधान के आलोक में तुरन्त के प्रभाव से श्री समरेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को परिसमापनाधीन मधेपुरा—सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मधेपुरा का "सहायक परिसमापक" नियुक्त करता हूँ।

आदेश से,
अजय कुमार चौधरी,
निबंधक
सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 555-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>